



Class: VII- 2nd Lang	Department: Hindi	Date- 22/11/22
LESSON- 9 रहीम के दोहे	Topic: Question Bank with Grammar	Note: अभ्यास पुस्तिका पर लिखना

अति लघु प्रश्न

प्रश्न-1 जल मछलियों का साथ कब छोड़ देता?

उत्तर - जब मछलियाँ जाल में फँस जाती हैं तब जल उनका साथ छोड़ देता है।

प्रश्न-2 रहीम ने क्वार मास के बादलों को कैसा बताया है?

उत्तर- रहीम ने क्वार मास के बादलों को थोथा यानी बेकार गरजने वाला बताया है।

प्रश्न-3 संपत्ति अधिक होने पर क्या होता है?

उत्तर: संपत्ति अधिक होने पर लोग रिश्ते-नाते बनाने के लिए अनेक तरीके निकाल लेते हैं।

प्रश्न-4 जाल पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है?

उत्तर- जाल पड़ने पर पानी बह जाता है क्योंकि वह मछलियों से सच्चा प्रेम नहीं करता है।

प्रश्न-5 पेड़ अपना फल स्वयं क्यों नहीं खाते हैं।

उत्तर- पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते क्योंकि वे परोपकारी होते हैं।

प्रश्न-6 आश्विन महीने के बादलों की क्या विशेषता होती है?

उत्तर- आश्विन महीने में बादल केवल गरजते हैं।

लघु प्रश्न

प्रश्न-1 सच्चे मित्र की क्या विशेषता होती है?

उत्तर- सच्चा मित्र सदैव मार्गदर्शक होता है, सच बोलता है, प्रत्येक कार्य में सहयोगी होता और संकट के समय मित्र का साथ नहीं छोड़ता।

प्रश्न-2 सज्जन और विद्वान के संपत्ति संचय का क्या उद्देश्य होता है?

उत्तर- सज्जन और विद्वान संपत्ति का अर्जन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उनका धन हमेशा दूसरों की भलाई में खर्च होता है।

प्रश्न-3 'जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता' इसका क्या प्रमाण है?

उत्तर- जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता। इसका यह प्रमाण है कि मछलियों के जाल में फँसते ही जल उन्हें अकेला छोड़कर आगे बह जाता है।

प्रश्न-4 रहीम जी मनुष्य को धरती के माध्यम से क्या सीख देना चाहते हैं?

उत्तर-रहीम जी मनुष्य को धरती के माध्यम से सीख देना चाहते हैं कि जैसे धरती सरदी, गरमी व बरसात सभी ऋतुओं को समान रूप से सहती है, वैसे ही मनुष्य में भी अपने जीवन में सुख-दुख को सहने की क्षमता होनी चाहिए।

दीर्घ प्रश्न - मूल्यपरक प्रश्न

प्रश्न-1 हमें वृक्ष और सरोवर से क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए?

उत्तर- हमें वृक्ष और सरोवर से परोपकार करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वृक्ष और सरोवर निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं। उसी प्रकार हमें दूसरों की भलाई निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए।

प्रश्न-2 वृक्ष और सरोवर किस प्रकार दूसरों की भलाई करते हैं?

उत्तर- वृक्ष और सरोवर अपने द्वारा संचित वस्तु का स्वयं उपयोग नहीं करते हैं। वृक्ष असंख्य फल उत्पन्न करते हैं लेकिन वे स्वयं उसका उपयोग नहीं करते। वे दूसरों के लिए फल देते हैं। ठीक इसी प्रकार सरोवर भी अपना जल स्वयं न पीकर उसे समाज की भलाई के लिए संचित करते हैं।

प्रश्न-3 रहीम जी ने क्वार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है?

उत्तर- रहीम जी ने क्वार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो धनवान से निर्धन हो चुके हैं। वैसे लोग जब उन दिनों की बात करते हैं, जबकि वे धनी तथा सुखी थे, तो उनकी बातें पूर्णतः क्वार के बादलों की तरह खोखली गरज जैसी होती है। क्वार के बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। उसी प्रकार धनी लोग निर्धन होकर केवल अपनी अमीरी की बातें ही करते हैं।

व्याकरण भाग

प्रश्न 1 - दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।

1. बलवान x कमज़ोर
2. नूतन x पुरातन
3. ग्रामीण x शहरी
4. काल x अकाल
5. रोगी x निरोगी
6. खंडन x मंडन
7. तरल x ठोस
8. स्वच्छ x दूषित

प्रश्न-2- भाववाचक संज्ञा बदलिए -

1. काला + पन = कालापन
2. निपुण + ता = निपुणता
3. एक + ता = एकता
4. पात्र + ता = पात्रता
5. मम + त्व = ममत्व
6. अच्छा + आई = अच्छाई
7. नजदीक + ई = नजदीकी
8. थक (ना) + आवट = थकावट

प्रश्न-3- दिए गए वाक्यों के लिंग बदलकर लिखिए।

1. मालिक बगीचे में खड़ा है। - मालकिन बगीचे में खड़ी है।
2. सेठजी दुकान में बैठे हैं। - सेठानी जी दुकान में बैठी हैं।
3. मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। - मेरी पड़ोसिन बहुत अच्छी है।
4. बालक छत पर सो रहा है। - बालिका छत पर सो रही है।
5. जंगल में मोर नाचता है। - जंगल में मोरनी नाचती है।
6. दादा जी पौधों को पानी दे रहे हैं।- दादी जी पौधों को पानी दे रही हैं।

---000---

घर में रहें , सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें